

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018 — श्रावण 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 7993/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2018)

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005)  
को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“12.	के. के. मोदी यूनिवर्सिटी	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2652, दिनांक 22-07-2003	ग्राम-महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड-491001	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अभियांत्रिकी/डिजाईन</li> <li>● वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त</li> <li>● विज्ञान</li> <li>● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा</li> </ul> <p>में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.</p>
13.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	वेद माता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार	उप पंजीयक हरिद्वार से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन क्र. : बही क्र. : 4 जिल्द क्र. : 47, पृष्ठ : 270-271 स. क्र. : 84 दिनांक 14-11-1969	ग्राम-सांकरा, कुम्हारी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>● संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम, योग, वैदिक विज्ञान एवं अन्य दर्शन</li> <li>● विधि</li> <li>● व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त</li> <li>● ललित कला/प्रदर्शन कला/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला</li> <li>● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/यात्रा एवं पर्यटन/जन संचार</li> </ul>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>● कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान</li> <li>● सूचना प्रौद्योगिकी</li> <li>● अभियांत्रिकी/डिजाइन</li> </ul> <p>में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.”</p>

नोट : धारा 11 की उप-धारा (1) में निर्धारित जमा राशि रुपये 5.00 करोड़ के स्थान पर इस प्रकरण में रुपये 50.00 लाख होगी.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 7993/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2018)

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION)  
(AMENDMENT) ACT, 2018**

**An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title, extent and commencement.** 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Schedule.** 2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"12.	K. K. Modi University	Modi Innovative Education Society	Society registered under Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration Number 2652, date 22-07-2003	Village-Mahmara, Jalbandha Road, Tehsil and District-Durg, Chhattisgarh Pin-491001	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - <ul style="list-style-type: none"> <li>• Engineering/Design</li> <li>• Commerce/Management/Finance</li> <li>• Sciences</li> <li>• Hotel Management/Hospitality/Tourism/Travel</li> </ul>
13.	Dev Sanskriti Vishwavi dyalaya	Ved Mata Gayatri Trust, Haridwar	Registered with Deputy Registrar Haridwar Registration No: Book No: 4, Folio No: 47, Page : 270-271, S. No.: 84 Dated 14-11-1969	Village-Sankra, Kumhari, District-Durg Chhattisgarh	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanskrit Based Courses, Yoga, Vedic Science and other Philosophy</li> <li>• Law</li> <li>• Business Administration/Commerce/Management/Finance</li> </ul>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fine Arts/Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts</li> <li>• Hotel Management/ Hospitality/Travel and Tourism/Mass Communication</li> <li>• Arts/ Humanities/ Social Sciences/ Science</li> <li>• Information Technology</li> <li>• Engineering/Design"</li> </ul>

**Note :** The deposit amount prescribed in sub-section (1) of Section 11 in this matter shall be Rs. 50.00 Lakhs in place of Rs. 5.00 Crores.